

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

| उद्योग                                                             | बकाया स्थिति      |          |          |          | वृद्धि (%)                |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------|
|                                                                    | मार्च 21,<br>2025 | 2024     | 2025     |          | वित्तीय वर्ष<br>में अब तक | वर्ष-दर-वर्ष |
|                                                                    |                   |          | जुला. 26 | जून 27   |                           |              |
|                                                                    |                   |          | जुला. 25 | जुला. 25 | 2025-26                   | 2025         |
|                                                                    | 1                 | 2        | 3        | 4        | %                         | %            |
| I. बैंक ऋण (II+III)                                                | 18243936          | 16814792 | 18483098 | 18501872 | 1.4                       | 10.0         |
| II. खाद्यान्न ऋण                                                   | 36531             | 28190    | 64389    | 56674    | 55.1                      | 101.0        |
| III. गैर-खाद्यान्न ऋण                                              | 18207404          | 16786602 | 18418709 | 18445197 | 1.3                       | 9.9          |
| 1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां                                   | 2287071           | 2156320  | 2305993  | 2313845  | 1.2                       | 7.3          |
| 2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)                          | 3937149           | 3724547  | 3947139  | 3947778  | 0.3                       | 6.0          |
| 2.1 सूक्ष्म और लघु                                                 | 791721            | 729948   | 872577   | 883101   | 11.5                      | 21.0         |
| 2.2 मध्यम                                                          | 360475            | 317323   | 357618   | 363994   | 1.0                       | 14.7         |
| 2.3 बड़े                                                           | 2784953           | 2677277  | 2716943  | 2700683  | -3.0                      | 0.9          |
| 3. सेवाएं                                                          | 5161462           | 4623910  | 5140226  | 5113966  | -0.9                      | 10.6         |
| 3.1 परिवहन परिचालक                                                 | 258409            | 244262   | 266029   | 265924   | 2.9                       | 8.9          |
| 3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर                                            | 32915             | 27356    | 36232    | 36579    | 11.1                      | 33.7         |
| 3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां                                       | 83091             | 79202    | 84781    | 85458    | 2.8                       | 7.9          |
| 3.4 शिपिंग                                                         | 7305              | 7076     | 8042     | 8727     | 19.5                      | 23.3         |
| 3.5 विमानन                                                         | 46026             | 44637    | 50750    | 45213    | -1.8                      | 1.3          |
| 3.6 पेशेवर सेवाएं                                                  | 195956            | 171393   | 196406   | 194935   | -0.5                      | 13.7         |
| 3.7 व्यापार                                                        | 1186787           | 1043753  | 1174129  | 1179121  | -0.6                      | 13.0         |
| 3.7.1 थोक व्यापार <sup>1</sup>                                     | 648619            | 545170   | 629888   | 637065   | -1.8                      | 16.9         |
| 3.7.2 खुदरा व्यापार                                                | 538168            | 498582   | 544241   | 542056   | 0.7                       | 8.7          |
| 3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा                                         | 532757            | 484531   | 555519   | 560514   | 5.2                       | 15.7         |
| 3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से | 1636098           | 1528856  | 1596490  | 1568925  | -4.1                      | 2.6          |
| 3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)                                 | 323146            | 322052   | 331346   | 315767   | -2.3                      | -2.0         |
| 3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)                            | 228678            | 202991   | 211702   | 198406   | -13.2                     | -2.3         |
| 3.10 अन्य सेवाएं <sup>3</sup>                                      | 1182118           | 992845   | 1171848  | 1168570  | -1.1                      | 17.7         |
| 4. व्यक्तिगत ऋण                                                    | 5952299           | 5507740  | 6126535  | 6161047  | 3.5                       | 11.9         |
| 4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं                                         | 23402             | 24606    | 23376    | 23114    | -1.2                      | -6.1         |
| 4.2 आवास                                                           | 3010477           | 2810108  | 3067120  | 3081152  | 2.3                       | 9.6          |
| 4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम                              | 141101            | 120373   | 145540   | 140433   | -0.5                      | 16.7         |
| 4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम             | 10080             | 9422     | 9886     | 9730     | -3.5                      | 3.3          |
| 4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया                                            | 284366            | 275601   | 292602   | 291088   | 2.4                       | 5.6          |
| 4.6 शिक्षा                                                         | 137456            | 123066   | 139587   | 141537   | 3.0                       | 15.0         |
| 4.7 वाहन ऋण                                                        | 622794            | 590981   | 642866   | 643654   | 3.3                       | 8.9          |
| 4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण <sup>4</sup>                                | 208735            | 132535   | 277025   | 294166   | 40.9                      | 122.0        |
| 4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण                                              | 1513889           | 1421047  | 1528534  | 1536172  | 1.5                       | 8.1          |
| 5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)                               |                   |          |          |          |                           |              |
| (i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां <sup>5</sup>                     | 2287804           | 2196939  | 2274259  | 2288548  | 0.0                       | 4.2          |
| (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम <sup>6</sup>                             | 2240503           | 1998597  | 2460012  | 2489085  | 11.1                      | 24.5         |
| (iii) मध्यम उद्यम <sup>7</sup>                                     | 601451            | 511874   | 591992   | 596343   | -0.8                      | 16.5         |
| (iv) आवास                                                          | 746651            | 748840   | 856626   | 940427   | 26.0                      | 25.6         |
| (v) शिक्षा ऋण                                                      | 62825             | 61523    | 64355    | 68839    | 9.6                       | 11.9         |
| (vi) नवीकरणीय ऊर्जा                                                | 10325             | 7075     | 12563    | 12160    | 17.8                      | 71.9         |
| (vii) सामाजिक अवसंरचना                                             | 1316              | 2937     | 828      | 943      | -28.4                     | -67.9        |
| (viii) निर्यात ऋण                                                  | 12479             | 12298    | 13047    | 12875    | 3.2                       | 4.7          |
| (ix) अन्य                                                          | 47900             | 58548    | 46467    | 44331    | -7.5                      | -24.3        |
| (x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग                       | 1820904           | 1743686  | 1825579  | 1842667  | 1.2                       | 5.7          |

**टिप्पणियाँ:** (1) आंकड़े अंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।